						ान है ation																
	tatia .	. c =			pilo		101	40.1 64	9641	-,	-		-									
[1] कर्मचारी का विवरण De नाम Name (Capitals)	talls	or Em	ploye	e T	П	T	T	П	T	Т	T	T	Т	T	T	T	T	T	T	T	T	
			++	1				1 1		(D		\perp			_	_	_	_		_	_	_
कर्मचारी संख्या Staff No.	0.00	Щ		1	पदनाः	/विभाग Designation/Deptt विरमित होने का कारण																
कम्पनी में सेवा ग्रहण करने वे Date of Joining in the Con						1000	मेत ह ise o															
Date of Johning in the Con	- Inparry	T	T	T		Cat	130 0	1 00			म वेत	न		L	AS	ГР	AY				-	
विरमित होने की तिथि	Date of	of Se	paratio	on		मूल	वेत-	T Ba	asio	Pay	,	मॅहग	ाई	भत्ता	D	.A.	T	τ	र्ग₀ प	नी.	P.	P.
	-									I					Т		Ţ	_	L		10	
			ervice								वर्ष					मह					1	देन
[2] नामित का विवरण (कर्मच	वारी के	मृत्यु ।	की स्थि	ति म	T) De	tails o	f Nor	nine	e (li	n cas	se of	DE	ATH	l of	em	plo	yee)	_		_	
नाम Name (Capitals)						1					93.											
कर्मचारी से संबंध Relations	hip wit	th em	ployee							25										f		
[3] पत्राचार का पता Addres	ss For	Corre	espond	dend	e .															_	_	_
						,			192		पिन	कोड	P	IN	Coc	le					1	
[4] बैंक विवरण Bank Deta	ails												2					_				
खाता संख्या Account No).	बैंक	का नाम	TNa	ame o	of Bar	k	शाख	ा व	त्र ना	म Na	me	of E	3ran	ch			स्थ	ान ।	Pla	се	
									y da		10,50	44.00					*					
कर्मचारी / नामित			- 61	-			ture/	Thur	nb l	mpr	essio	on (L	TI/I	RTI)	of	Em	plo	ye	e/I	Nor	nin	ee
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि	ग के कम संस्	उप ख्या 1	योग एवं 2	के में वि	लिए देया ग	! या उ	क्त वि	FC वरण	R कार्	USE र्मेक	IN विभा	PEF ग के	१ ड(NIC भेले	VEL खों	<u>.</u> D	EP/	AF त्या	RTN	ΛE	NT	
कार्मिक विभाव	ग के कम संस्	उप ख्या 1 furnis	<mark>योग</mark> एवं 2 hed at	के में वि SI.N	लिए देया ग	! या उ % 2 ha	क वि ive be	FC वरण een v	oR कार्ग erif	USE र्मेक ied f	iN विभा rom	PER ग के the p	SS(ऑ oers	ON! भेले sonn	NEL खों el r	EIर eco	EP/ T सर rds.	AF त्या	२ T N पित	ΛE a	NT ज्या	ग
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic	कम संख् culars	उप ख्या 1 furnis कार्मि	योग एवं 2 hed at क विभ	<u>के</u> में वि SI.N	लिए देया ग 10. 1 स	ाया उ % 2 ha	क वि ive be	FC वरण een v	oR कार्ग erif	USE र्मेक ied f	IN विभा rom	PER ग के the p	श् S (आं pers	Pin Pin Sonn re &	VEL खों el r	हार eco	EP/ T 积ds.	AF त्या ers	RTN पित	ЛЕ nel	NT ज्या	ग
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic	म के कम संख् culars	उप ख्या 1 furnis कार्मि	योग एवं 2 hed at क विभ	<u>के</u> में वि SI.N	लिए देया ग 10. 1 स	ाया उ % 2 ha	क वि ive be	FC वरण een v	oR कार्ग erif	USE र्मेक ied f	iN विभा rom	PER ग के the p	श् S (आं pers	Pin Pin Sonn re &	VEL खों el r	हार eco	EP/ T 积ds.	AF त्या ers	RTN पित	ЛЕ nel	NT ज्या	ग
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic लेखा विभाव पुगतेय राशि (Amount Pa	म के कम संख् culars	उप ख्या 1 furnis कार्मि	योग एवं 2 hed at क विभ	<u>के</u> में वि SI.N	लिए देया ग 10. 1 स	ाया उ % 2 ha	क वि ive be	FC वरण een v	oR कार्ग erif	USE र्मेक ied f	IN विभा rom	PER ग के the p	श् S (आं pers	Pin Pin Sonn re &	VEL खों el r	हार eco	EP/ T 积ds.	AF त्या ers	RTN पित	ЛЕ nel	NT ज्या	ग
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic लेखा विभाव मुगतेय राशि (Amount Pa	म के कम संख् culars	उप ख्या 1 furnis कार्मि	योग एवं 2 hed at क विभ	<u>के</u> में वि SI.N	लिए देया ग 10. 1 स	ाया उ % 2 ha	क वि ive be	FC वरण een v	oR कार्ग erif	USE र्मक ied f एवं मु JSE	IN विभा rom	PEF 可 奋 Sign	अर्soers atu	NNC भेले Gonn rre &	NEU खों el r Se	EIर eco al c	EP/I सर rds.	AF त्या ers RT	RTM पित son	nel	NT ज्या Of T	ग
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic लेखा विभाव मुगतेय राशि (Amount Pa	क्रम संस् culars पा के ayable	डप ख्या 1 furnis कार्मि डपः e) :	योग एवं 2 hed at क विभ योग	के में वि डा.N	िल्लाह्य विश्वास्त्र विष्य विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष विष्य विष विष विष्य विष विष विष विष विष विष विष विष विष विष	ाया उ % 2 ha	क वि ive be	FC वरण een v	oR कार्ग erif	USE र्मक ied f एवं मु JSE	EIN विभा rom ! हर /!	PEF 可 奋 Sign	अsoers atu Ol	Pinh sonn For / To Dy. /	NEI खों el r Se 'S I	EIर eco al c	EP/I सर rds.	AF त्या ers RT	RTM पित son	nel	NT ज्या Of T	ग
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic लेखा विभाव मुगतेय राशि (Amount Pa (Rupees सहायक / Asstt.	क्रम संस् culars प के ayable	उप ख्या 1 furnis कार्मि उपः e) :	एवं 2 hed at क विभ योग	के में वि SI.N । गा टे	लिए देया ग lo. 1 श िलए	्याया उर % 2 ha	क वि ive be	FC वरण een v	oR कार्ग erif	USE र्मक ied f एवं मु JSE	EIN विभा rom ! हर /!	PEF 可 奋 Sign	अsioers atu iUu iUu iiu	DNN भेले sonn JNT JNT	NEI खों el r Se 'SI	EIर eco al c	EP/I सर rds.	AF त्या ers RT	RTM पित son	nel	NT ज्या Of T	ग
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic लेखा विभाव मुगतेय राशि (Amount Pa (Rupees सहायक / Asstt.	का के culars पा के ayable	उप ख्या 1 furnis कार्मि उप e):	एवं 2 hed at क विभ योग	के में वि SI.N गा व् के	िल्छ देया ग do. 1 र के अधि लिए	्राया उर्जे 2 ha	का ह	FC aरण eeen v	on aniin an	USE र्मक ied f एवं मु JSE क Jr	eahirom set /set /set /set /set /set /set /set	PEF ग के the r Sign ACC	अर्s आं atu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	DNI भेले sonn F / T Dy. /	Se Se Sy Manager	eco al c DE	EP/ T सल prds.	AF त्या ers RT	RTM पित ME	nel EN	NT ज्या Of T	ग fic
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic लेखा विभाव मुगतेय राशि (Amount Pa (Rupees सहायक / Asstt.	कम संस् culars म के ayable ance	उप ख्या 1 furnis कार्मि उप e):	योग एवं 2 hed at क विभ योग ped Ro amoun	के में वि SI.N गग टें के	िल्ए देया ग lo. 1 श के अधि लिए Mipt hipt hyable ए/अंगू	्राया उत्तर प्रधान के अपने किया किया किया किया किया किया किया किया	का ह	FC aरण eeen v	on aniin an	USE र्मक ied f एवं मु JSE क Jr	eahirom set /set /set /set /set /set /set /set	PEF ग के the r Sign ACC	अर्s आं atu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	DNI भेले sonn F / T Dy. /	Se Se Sy Manager	eco al c DE	EP/ T सल prds.	AF त्या ers RT	RTM पित ME	nel EN	NT ज्या Of T	ग fic
कार्मिक विभाव प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic लेखा विभाव भुगतेय राशि (Amount Pa (Rupees सहायक / Asstt. अग्रिम स्टांपित रसीद Adva कुल देय राशि प्राप्त की Re	का के evulars ance ance acceived gruen fin an	उप ख्या 1 furnis कार्मि उप e): Stam d full a तकर्ता नाम N	एवं 2 hed at क विभ योग ped Re amoun का हर	के में वि SI.N गग के के के	िल्ए do. 1 र ho. 1 र िल्ए ipt ipt vyable र/अंगू	्राया उर % 2 ha धेकारी े ठे का	का ह	FC व्यरण een v FO	on animate of the second of t	USE र्मक ied f एवं मु JSE क Jr	हर /s IN / FR / A	PEF ग के sign ACC	SS(S) Silvers attu	ONI Phrin conn re & JNT Dy. / Dy. /	NEL खों el r Se Se S I	al c	EPAI HOTOLOGICAL PAINTS IN THE	AF त्या ers RT	RTM पित son ME Ac	nel ENT)	NT ज्या Of r	ग fic
प्रमाणित किया जाता है कि व प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic लेखा जिभाव भुगतेय राशि (Amount Pa (Rupees सहायक / Asstt. अग्रिम स्टांपित रसीद Adva कुल देय राशि प्राप्त की Re प्राप्तकर *पुरूष के लिए बॉए/महिला के लिए कर्मचारी / नामित एवं प्राप्तक	ance श्रिप्य	उप ख्या 1 furnis कार्मि उप e): Stam d full a तकर्ता नाम N उपर्यु	एवं 2 hed at a विभ योगा का हर	के में कि SI.N Iग ट के के सि pa ताक्षा	िल्ए देया ग do. 1 & do. 1 & f do. a	्राया उर 2 h a 2 h a 3 a b b b c d d d d	का ह	FC वरण een v FO न Siç ressio	on (L	USE र्मिक ied f vai मु JSE an Jr TI) for	हर /s IN / Fahir	PEF ग के the r Sign ACC / सह sstt.	RS(C) Silver state stat	DNN भिले Gonn Fre & Dy. / Dy. / Ticker ress	NEI खों el r Se SI Market hue et ion	eco al d DE	EP/ I सल rds.	AF त्या ers RT	RTII)	nel ENT)	NT ज्या Of r	ग fic
प्रमाणित किया जाता है कि व प्रमाणित किया जाता है कि व Certified that above partic लेखा विभाव भुगतेय राशि (Amount Pa (Rupees सहायक / Asstt. अग्रिम स्टांपित रसीद Adva कुल देय राशि प्राप्त की Re प्राप्तकत *पुरूष के लिए बॉए/महिला के लिए	ance श्रिप्य	उप ख्या 1 furnis कार्मि उप e): Stam d full a तकर्ता नाम N उपर्यु	एवं 2 hed at a विभ योगा का हर	के में कि SI.N Iग ट के के सि pa ताक्षा	िल्ए देया ग do. 1 & do. 1 & f do. a	्राया उर 2 h a 2 h a 3 a b b b c d d d d	का ह	FC वरण een v FO न Siç ressio	on (L	USE र्मिक ied f Vai मु JSE an Jr TI) for	हर /s IN / Fahir	PEF ग के sign ACO / सह sstt.	RS(C) Silver state stat	DNN भिले Gonn Fre & Dy. / Dy. / Ticker ress	NEI खों el r Se SI Market hue et ion	eco al d DE	EP/ I सल rds.	AF त्या ers RT	RTII)	nel ENT)	NT ज्या Of r	ग fic